



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1947 (श10)  
(सं० पटना 336) पटना, मंगलवार, 29 अप्रील 2025

सं० 03/स्था० रा०से०(पद सृजन)—04/2025—293—(3)/रा०

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,  
महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक 25.04.2025

विषय :-केन्द्रीय बजट, 2025 एवं मंत्रिपरिषद् के निर्णयों के अनुसार राज्य में आधारभूत संरचना, निर्माण आदि कार्यों में व्यापक बढ़ोतरी एवं उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के मद्देनजर भू-अर्जन के कार्यों के सुगम क्रियान्वयन हेतु राजस्व सेवा के विभिन्न पदों अर्थात् अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के 104 पदों एवं राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो (भू-अर्जन) के 81 पदों अर्थात् कुल-185 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

2. राज्य के विकास कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगभग सभी जिलों में भू-अर्जन अधिनियमों यथा-भू-अर्जन अधिनियम, 2013, रेलवे अधिनियम, 2008 एवं एन०एच०एक्ट, 1956 के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्यान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही मुख्य परियोजनाओं में ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे/भारतमाला के परियोजनाओं यथा-कोशी-मेची/हरोहर नदी तटबंध/बागमती तटबंध/महानन्दा तटबंध इत्यादि के साथ-साथ हवाई अड्डा के निर्माण/विस्तारीकरण हेतु बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण का कार्य विभिन्न जिलों की प्राथमिकता में है।

3. केन्द्रीय बजट, 2025 एवं मंत्रिपरिषद् के निर्णयों के आलोक में आधारभूत संरचना आदि के कार्यों में व्यापक बढ़ोतरी एवं उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य अन्तर्गत भू-अर्जन के कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व सेवा के अधीन विभिन्न पदों अर्थात् अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो (भू-अर्जन) के अतिरिक्त पदों को सृजित करने की आवश्यकता है।

4. आधारभूत संरचनाओं के निर्माण आदि कार्यों में व्यापक वृद्धि एवं उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के मद्देनजर 'भू-अर्जन' के सुगम कार्यान्वयन हेतु राजस्व सेवा के अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो (भू-अर्जन) के 81 पदों अर्थात् कुल-185 पदों के अनुमान्य वेतनमान सहित सृजन तथा अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र०	पदनाम	वेतन स्तर	पूर्व से सृजित पदों की संख्या	पदों की वांछित संख्या	कुल सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (मुख्यालय स्तर पर)	11	—	05	05
2	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (प्रमंडल स्तर पर)	11	—	09	09
3	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (जिला स्तर पर)	11	24	114 (प्रत्येक जिला में 03 पद)	90
4	राजस्व अधिकारी-सह- कानूनगो, भू-अर्जन (मुख्यालय स्तर पर)	7	—	05	05
5	राजस्व अधिकारी-सह- कानूनगो, भू-अर्जन (जिला स्तर पर)	7	38	114 (प्रत्येक जिला में 03 पद)	76
कुल—					185

5. उक्त सृजित पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय ₹12,81,32,400/- (बारह करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार चार सौ रुपये) मात्र संभावित है।

6. प्रस्ताव पर दिनांक-28.03.2025 को प्रशासी पदवर्ग समिति (कार्यवाही ज्ञापांक-4263, दिनांक-07.04.2025) की स्वीकृति प्राप्त है।

7. प्रस्ताव पर दिनांक-25.04.2025 को मंत्रिपरिषद्, बिहार की बैठक के मद संख्या-24 में स्वीकृति प्राप्त है।

8. उक्त पदों के सृजन पर होने वाले व्यय की राशि का भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मांग सं०-40, मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष 0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय, विपत्र कोड-40- 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दीपक कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 336-571+10-डी०टी०पी०  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in/>